



# RAJASTHAN

← →  
सब-इंस्पेक्टर

## RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

पेपर - 2

भाग - 4

सामान्य विज्ञान एवं अर्थशास्त्र



1. मानव शरीर	1
2. विटामीन	39
3. शंक्रामक बीमारियाँ	46
4. चिकित्सा अवारद्ध्य एवं परिवार कल्याण योजनाएं	68
5. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	86
6. नौवहन तंत्र	100
7. कार्बन एवं इशके अपरूप	109
8. पी.एच. इंकेल	115
9. डैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवाशिकी अभियांत्रिकी	117
10. विद्यि डैव तकनीकी	142
11. पर्यावरण एवं डैव विविधता	150
12. रक्षा प्रौद्योगिकी	170
13. नैनो प्रौद्योगिकी	176
14. राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	182
15. कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी	189


**अर्थव्यवस्था**

16. अर्थव्यवस्था का अभिप्राय एवं प्रकार	207
17. पूँजी बाजार एवं इंटॉक एकरण्येन्ड	208
18. राष्ट्रीय आय	211
19. मुद्रा इफिति	213
20. कम्पनी एवं इशके प्रकार	216
21. लैबी एवं बैंकिंग	217
22. अनर्डक गैर निष्पादित सम्पत्ति	221
23. पुनर्पूँजीकरण	224
24. विदेश व्यापार नीति	227
25. प्रमुख बैंकिंग कमेटियाँ	231
26. बजट एवं कर	236
27. व्यापार नीति	242
28. विदेशी निवेश	244

29. विनिमय दर	246
30. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन	247
31. अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	253
32. रार्वजनिक वितरण प्रणाली	257
33. ई-कॉमर्स	258
34. गरीबी	259
35. आर्थिक संवृद्धि एवं मानव विकास शुल्कांक	261
36. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं	262
37. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य	264
38. राजस्थान की अर्थव्यवस्था	265
39. राजस्थान में वृद्धि विकास और आयोजन	276
40. राजस्थान की विकास परियोजना	278
41. राजस्थान का जनशक्तिकांश परिदृश्य	284
42. राजस्थान में बेरोजगारी	285
43. लेखांकन एवं अंकेक्षण	287

માનવ ક્રીર





### \* तंत्रिका तंत्र की परिभाषा :-

ऐसा तंत्र जो शरीर के बाहर की संवेदनाओं को शरीर के भीतर आंगों के मध्य स्थन सम्बन्ध बनाकर रखता है ऐसे तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है।

तंत्रिका तंत्र की इकाई न्युरोन लोती है। जिसकी उत्पत्ति स्ट्रोमल से होती है। स्ट्रोमल चुंग के ऊपर जाए जाए बाले रक्त पतली रसी धरत होती है।

Q.M) न्युरोन के तीन मांग होते हैं -

(i) उड़ोन :-

यह न्युरोन का वह मांग होता है जो बाहर की संवेदनाओं की गतिशीलता होती है।

जैसे:- जांचो के छारा हृष्य को देखना श्राकानो से सुनना

(ii) समावृद्धीन :- न्यूरोन के इसी मार्ग के छारा सभी ड्रॉन अवस्थित रहते हैं।

(iii) स्पर्शलोन :- 1. न्यूरोन का धृष्ट पहल मार्ग है जो एक तंत्रिका तंत्र को द्वारा तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है और जिस मार्ग से जोड़ता है उसे स्नोट्रिक्स नोप्स रहते हैं।

Special Note:-

Imp ऑपरेशन करने के कोरान डॉमिन बोगले मार्ग की सुन करता है?

स्नोट्रिक्स नोप्स

शराब पीने वाले व्यक्ति का व्यायाम इत्तीलिं लड़खड़ाता है, उसके स्नोट्रिक्स नोप्स स्लोल ली मार्ग आधिक ले जाती है,

Special Note:-

ग्राही न्यूरोन :-

ऐसा न्यूरोन जो बच्चों में पालतु पशुओं में पाश्चात्याता है जो सर्वेक्षणों की स्थिर नरके रखता है और जहरत पड़ने पर लोहरता है इत्तीलिं बच्चों ने सामने गंधी-गंधी लेने नहीं करनी चाहिए योग्य बच्चों में नश्वर करने की समता पायी जाती है।

पालतु पशुओं को जो ट्रैनिंग की जाती है वो गताही न्यूरोन के लिए दिया जाता है।

जैसे:- जमनि के नुते, शार्फिंग ते लाभी, ब्रानील वे साँप्

सालाना के छोड़े,

Question pattern :-

(Q.1) तंत्रिका तंत्र का कार्य निम्न में से कौनसी है?



- (A) विलास (B) नेक्टेन (C) कुरोन (D) A, B, C, एवं

निम्न में से कुरोन के कौनसे भाग हैं?

- (Q.2) (A) सामग्री (B) ड्रॉन (C) स्प्लॉन (D) a, b, c, एवं

(Q.3) ऑपरेशन करने के द्वारा डॉक्टर को निम्न से जाग को स्वच्छ करता है?

- (Q.3) (A) सामग्री (B) ड्रॉन (C) स्प्लॉन (D) सोलिडिक्स नोड्स



गणित के निम्न मान क्यों हैं?

(i) अन्तरमस्तिष्ठ :-

इसके द्वारा मान कीते हैं।

(ii) अ स्टेटीमेंट

इसी मान के द्वारा कथाशास्त्री ~~है~~ बुद्धिमता अन्तरभाल्मा का केंद्र चिन्ह के साथ सूचि (सूची) होती है।

(iii)

इन्डिकेशन्सफलान

इसके द्वारा मान कीते हैं।

(iv) अंतिमस

इसी मान के द्वारा दृ, गम, इडा आ अहसास होता है।

(v)

हाइपोथेलैमस

इसी मान के द्वारा प्यार, मोहब्बत,

व्यंजक, धृणाक, कैष, मय, उर, बैचिनी, इमोनशल वाली बातें त्वार ताप का विस्त्रित होती हैं।

(vi)

प्रब छोटे-छोटे वच्चो से प्यार होता है तो इसके द्वारा क्या होता है?

(a)

स्फूर्य

(b)

कैफ़ै

(c)

चैलैमस

(d)

हाइपोथेलैमस

Special Note :- इसे मस्तिष्ठ का, अन्तरमस्तिष्ठ वा - निराकृ होता है।

(i) अन्तरमस्तिष्ठ मस्तिष्ठ का किसी मान कीता है?

(a)  $\frac{1}{2}$

(b)  $\frac{1}{3}$

(c)  $\frac{2}{3}$

(d)  $\frac{2}{5}$

(2) प्राचमस्तिष्ठ :- इसके को मारा होते हैं -

(i) काल्पनिकवाक्याधीजमेना :- इसी मारा के द्वारा सुनने मिलता है, और देखने की शक्ति को नियंत्रित किया जाता है।

(ii) स्वैरीकरणपद्म :- इसी मारा के द्वारा मैराज्ञु भृत्यक से छुटता है।

(3) प्रथमस्तिष्ठ :- इसके को मारा होते हैं -

(i) मैहलाजाज्ज्वाधीता :- इसी मारा के द्वारा हृष्यस्पदन, रक्त-चाप और उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है,

(ii) स्वैरीविलम्ब :- इसी मारा के द्वारा हमारे शरीर में प्रवर्तन स्वास्थ्यक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे:- हाथों की अगुलियों को स्वतः चलाना, मुख लगाना, पारन लगाना आदि सभी।

\* मैराज्ञु :- मैराज्ञु द्वरा को क्रियाएं होती हैं -

- (i) प्रतिवृत्ति क्रिया
- (ii) स्वैरीकरणी को मैजना

### (ii) प्रतिष्ठिति किया :-

जब बाहर की सर्वेक्षनाएँ मैररप्पु पर पहुँचती हैं और धरना गहरी नहीं होती है तो ये सर्वेक्षनाएँ वापस से उसी ओर तक पहुँच जाती हैं तो उसे प्रतिष्ठिति किया कहा जाता है।

जैसे:- मौजन मी सुशब्द से मुहे से वारी मात्रा, गाड़ी का अचानक होने सुनते ही चौकना

### (iii) संवेदनाओं को भेजना :-

अगर मैररप्पु पर धरना गहरी होती है तो ये सर्वेक्षनाएँ स्थितिक तक पहुँचती हैं जहाँ पर प्रतिविन्ब बनता है।

जैसे:- अचानक कोठनी पर जब घोट लगती है तो छुरन्त देखने की इच्छा लोती है तो घोट किसी आई है।

### condition का pattern :-

रात को ट्रैन से जब आती लो रहे होते हैं तो मगले

Q.1) स्टैशन पर डिढ़े में भागियों के चलने की आवाज सुनती है तो मैररप्पु पर कौनसी किया होती?

### प्रतिष्ठिति किया

(a) संवेदनाओं को भेजना

(b) दोनों किमाएं सक साध होना

(c) इनमें से कोई नहीं

(d)

जब व्यक्ति वास्तव में नहा रहा होता है तभी उसमें सोबाहल

Q.2) मी धटी कुनार्ड होती है तो मैररप्पु पर कौनसी किया होती?

~~(a)~~ प्रतिष्ठिति किया

दोनों

(c)

(b) संवेदनाओं को भेजना

इनमें से कोई नहीं


(d)

Q.3) नहाते लग्या विद्या की आवाज सुनाई देती है पापा हीना  
का नोल माया कौनसी क्रिया होगी?  
रंगेदारों को मैजना,

Ans:-


जब महिला रवेत के घास काटती है तो उसे दुर्लभ  
Q.4) एक आवाज सुनाई देती है तो मैररप्पु पर कौनसी क्रिया  
होगी? Ans:- प्रतिवृति किया,

### Special Notes:-



कपरी मां का तंत्रिका तंत्र :-


देश तंत्रिका तंत्र जिसमें ऊँग केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र है।  
जूँड़ होते हैं तो उसे कपरी मां का तंत्रिका तंत्र भहाजाता है,  
परन्तु:- बालों का छुड़ना, नारुन का छुड़ना, चिंचा  
का छुड़ा आदि जमी,



स्वामत तंत्रिका तंत्र :-

वे ऊँग जो स्वतः ही नियंत्रित  
होते हैं उन्हें स्वामत तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है।  
परन्तु:- हृदय का स्वतः छाड़ना, मल की झंगेदारों  
का पता चलना, किड़नी का स्वतः गार्फ़ करना, और खोनी  
स्वतः छुतलियों का झापकना आदि जमी,

### पाचन तंत्र



मुख्यगुहा :- (A) जानू मौजन (L) लाइसेंजरिस्टर

समावलेख / दायलीन

पहली बार मौजन की पाचन किया मुख्यगुहा से होती है। अंतिम पाचन किया छोटी औत से होती है।

— मुख्यगुहा से दो संजाधम निकलते हैं जिनसे मौजन की भावन किया होती है —

(ii) समावलेख / दायलीन :- पहली बार कार्बोहाइड्रेट की पाचन किया जली संजाधम के द्वारा होती है।

— कार्बोहाइड्रेट की सराचि / अर्करा मे बदलता है।

इंस्टर बार - गार

यह होता है कि शैती को या मौजन ज्यादा उम्र में तक चबना चाहिए, और इसी से शैती हमें भी लगती है।

तभी तो चॉकलेट बनाने वाली कंपनियों "स्पैशलिंग" के कारण  
इन गतिक मीठा तम स्वती हैं।

(ii) लाइसेंजाइम स्पैजाम्स :-

विषमी लोती है, महसुक ब्रकार का लार होता है।

pH 6.8, इसी के कारण लार उत्तमी प्रकृति  
का होता है, लेकिन मुख्य बिन्दुर में धानी ज्यादा कीता है  
जानीलिए मौजन पहली बार कारीय प्रकृति में बदलता है।

Special Note:- मौजन पर आधे हुए जीवाणुओं को मारने का  
काम "लाइसेंजाइम स्पैजाम्स" करता है।

Condition pattern :-

(i) मौजन मी पहली बार अकृति मुख्युहा में डिल्से बदलती है।  
Ans: कारीम,

(ii) लार मी प्रकृति नोनसी लोती है। — अस्त्रिय

(iii) पहली बार मुख्युहा में जीवाणुओं को मारने का काम करना  
स्पैजाम्स करता है? → लाइसेंजाइम

आमाशय :-

मुख्युहा के बाद मौजन धीरे-धीरे गतासनली में  
होता हुआ आमाशय में खुँचता है अर्थात् गतासनली में मौजन  
मी पाचन किए नहीं होती है।

आमाशय का आकार: हाथ का आकार के लिए ज़मीन पर छोटा है।

- आमाशय में जठर गतियों पाई जाती है, जो जठर रस को नियंत्रित हैं जठर रस स्वरूप प्रकार का HCl होता है। (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल)

- इस HCl के कारण ही मौजन भी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। जिसमें बचे कुछ जीवाणु भी मर जाते हैं।

- आमाशय ने नियंत्रित संचायम् नियंत्रित है,

(P 1) तारपेण

(i) पीपिन: - आमाशय में जगर प्रोतीक आता है जो उस प्रोतीक की छोटे-छोटे ऊंचे से बॉटता है जिसे पॉलीपैदाइड कहा जाता है। और यह पॉलीपैदाइड अमीनो अम्ल में बदलता है।

(ii) लाइपेन:

जगर मौजन से ची, तेल, वसा, भासि आता है जो उसे वसीय अम्ल में बदलता है।

(iii) रैनिन:

यह संचायम् बच्चों में नियंत्रित है जो मात्र स्वन ने नियंत्रित कुछ कुछ भी पाचन किया करता है। जो 8 से 10 वर्ष तक ही पाया जाता है। बाद में रखता ही शर्करा हो जाता है।

Special Note :- डल्टी हमेशा आमाशय से होती है।

हामीन नम निकलता है संजायस्थप्यादा

Special Note 2 :-

आमाशय से मोजब उसे पहुँचे तक पड़ा रहता है

Special Note 3 :-

आमाशय और स्लॉट के बीच ऑल्ड्रिंग कौतूक लौता है

अव्याहय :-

हमारे शरीर के सबसे बड़ी अधिक अव्याहय गतियाँ हैं। ये गतियाँ अपने विभिन्न भौतिक विकास पर हामीन और संजायस्थ को नियालती हैं।

हामीन के रूप में इन्सुलिन निकलता है जबकि संजायस्थ के रूप में

(A) समाइलेज :-

अगर मोजन में नायोनाइट्रोट चर जाता है तो उसमी पायन किया करता है।

(B) मलाइपीज :-

अगर मोजन में घी, तेल, वसा जैव जाता है तो उसमी पायन किया करता है।

(C) फ्रिप्सन :-

अगर मोजन से ग्रोली चर जाता है तो उस प्रोटीन सी पायन किया करता है।

Special Note :-

① इन्सुलिन हामीन की कमी से ग्लुकोज मीमांसा छू जाती है जिससे यह ग्लुकोज मूल से ज्यादा छुलता है और यही मुझ शरीर के बाहर निकलता है। जिससे ग्लुकोज कार-बार शरीर से बाहर निकलता है। जिससे रोगी की तात्त्वक मम है जाती है, क्योंकि कम लो जाती है। चबकर ज्यादा आते हैं, बढ़ान ज्यादा महसूस होती है इसी रोग को मधुमेह नामक रोग कहा जाता है।

(ii) जब इन्सुलिन लामोन की वृक्ष हो जाती है तो रबुकोज मी  
मांगा कम हो जाती है तो सेसी स्थिति में रोगी की डायरी  
ताक्त कम हो जाती है रोगी को बचकर ज्यादा आता है।  
रोगी को सेवन पांचर कम हो जाता है जिसमें पिता नहीं  
बन सकता है रोग—हाइपोग्लैबीमा

Question Type I :- इन्सुलिन लामोन की नमी

- (a) रबुकोज की वृक्ष
- (b) रबुकोज की कमी
- (c) इनमें से कोई नहीं

Question Type II :- रबुकोज की वृक्ष से कौनसा रोग होता है?

- (a) मधुमेह
- (b) हैमा
- (c) रुडस
- (d)

Question Type III :- अग्नाशय गतिय से कौन को-से रोग होते हैं?

- (a) मधुमेह
- (b) हाइपोग्लैबीमा
- (c) दोनों
- (d) इनमें से कोई नहीं

### छोटी औंतवर्की औंत :-

मोजन की कांतिम पायन किया छोटी औंत में होती है।  
छोटी औंत की लम्बाई 6.25 मीटर होती है जबकि बड़ी औंत की  
लम्बाई 1.5 मीटर होती है।

छोटी औंत पर पायन वन्ध मी इन्हें बिलाई होती है जो मोजन को अवशोषित करती है अधिक प्रोश्न तरफे से रक्त में डालती है।

छोटी औंत और बड़ी औंत के मिलन बिन्दु को "सीमा" कहते हैं जो रोल्यूलोप्स मी पायन किया करता है जो मुख शाकात्मक होता है उसका सीमा बड़ा होता है।

बड़ी औंत में सीमा के पास कृमिकार होती है जो प्राचीन गाल में नच्चे भाल मी पायन किया करती ही, लैंगिक वर्तमान में वहका कोई उपयोग नहीं हो इसीलिए इसे अपशिष्ट अंग के नाम से जाना जाता है।

निम्न से से कौनसा अंग अपशिष्ट है?

- Q.1 (A) सीमा (B) लौलिम (C) सीमा (D) कृमिकार/अपशिष्ट

छोटी औंत ने निम्न संजापम निकलते हैं -

(A) माल्टीज, लैंकटीज, शुक्रेण :-

ये तीनों ने तीनों संजापम छोड़ कर शर्करा को शर्करा में बढ़ाते हैं।

माल्टीज	→ माल्टीज
लैंकटीज	→ लैंकटीज
शुक्रेण	→ शुक्रेण

\* इरिप्सिन:- अगर मोजन में प्रोटीन बच जाता है तो उस प्रोटीन की पायन किया जाता है।

(c) लाइफेजः -

अगर मैंजन से कसा बच जाता है तो इस पक्ष के पकाने का नाम करता है

लाइफेज़ोंजाप्ट


विस्तृत

लाइफेज़

होटी भौंत

m/s

EL



रामार्शलेज

रामार्शलेज

लाइफेज़

अग्रांथ

दिपिनर

माइक्रोलोक्टोर्ज

बायपीज़

उरिपिनर


- अग्रीट की मानो छड़ी गर्तिका लीवर खफ्ति शरीर की मध्यसे छोंकी गर्तिका श्रीयुष्मा गर्तिका

- व्यक्ति जो कुछ मी खाता है या पीता है तो पहली बार रक्त के मिलार्को लीवर के पास पहुँचता है

- जहर खाने वाले व्यक्ति का डॉक्टर मध्यसे पहले लीवर की जांच करता है क्योंकि लीवर को रक्त का मैनेजर (प्रबंधक) कहा जाता है। अगर लीवर ने जहर को छुरे शरीर में फेला दिया तो व्यक्ति की मरीज होना चिह्नित होता है।

- लीवर हमारे शरीर में हिपोरिक्स पदार्थ बनाता है जिससे साइडे के दिनों में रक्त को जमने नहीं देता है, जीवित साइडे के दिनों में देखी चीजें उड़ जाएं तुड़ के बने लड्डु खाने प्यासिद्ध;

- लीवर फिजिओजन / प्रॉट्रोसिट पदार्थ बनाता है जिससे रक्त का वर्षा बनता है।



लीवर कार्बोहाइड्रेट को मी स्टोर करता है ग्लाइकोजन ने उपचे लैटिन अम्ल पदने पर ग्लाइकोजन को ग्लुकोज में बदलता है इसीलिए लड़कियों ने/ महिलाओं को या पुरुषों को उपचाल नहीं तभी चरकर नहीं आते हैं।

लीवर प्रोटीन को स्टोर करता है आवश्यकता से अधिक प्रोटीन को यूरिया/ अम्मोनिया / दरिन अम्ल से बदलता है।

Special Note:- मूत्र में जो यूरिया निकलता है वो लीवर(महृत) आता है।  
मूत्र में यूरिया की मात्रा २०८०० होती है।

⇒ लीवर वसा को मी स्टोर करता है लैटिन आवश्यकता से अधिक वसा को हमारे रक्त में "गॉलेस्ट्रोल" ने उपचे छोड़ देता है। जिससे धीरे-धीरे गॉलेस्ट्रोल घसियों वा डिशियों में जमने लगता है और इसी से हृदयधात्र/ हृतकार्टिन जैसी विसरी होती है।

⇒ लीवर विटामिन को मी स्टोर करता है जिसे विटामिन A व K होता है।

\* (२) यौसिन रोग :- जब व्यक्ति शराब ज्यादा पीता है तो यह गर्जा रखते पहले रक्त के साथ में लीवर के पास पहुँचती है जिससे घृत कुटता है तो हमारे शरीर में रक्त की कमी होने लगती है जिससे व्यक्ति भी खींत हो जाती है जीवित कर जाता है कि शराब नहीं पीना चाही जाहि,

(३) यौविया :- १२० दिन के बाद RBC की आधिकतम स्तर